



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 1977/माघ 5, 1898

No. 25]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 1977/MAGHA 5, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 25th January 1977

G.S.R. 36(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No 291/76-Central Excises, dated the 21st December, 1976 relating to the Central Excises (28th Amendment) Rules, 1976, namely:—

In the said notification, for sub-rule (2) of rule 1, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Rule.”.

[No 9/77-CE]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1977

सांकांनि० 36(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (28वां संशोधन) नियम, 1976 से संबंधित, अधिसूचना सं० 291/76 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 21 दिसम्बर, 1976 निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, नियम 1 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा अर्थात् :—

“(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस नियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।” । ;

[सं० 9/77-के०उ०शु०]

G.S.R. 37(E) —In pursuance of the second proviso to sub-rule (1) of rule 32 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendment in the notification of the Central Board of Excise and Customs No 292/76-Central Excise, dated the 21st December, 1976, namely —

In the said notification, in the first paragraph,—

(a) in clause (b), for item (1), the following item shall be substituted, namely:—

“(1) Date of issue (both in figures and words),”,

(b) after clause (1), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(j) Over writings and cuttings in the entries in a sale-note shall make it invalid, unless such over writings and cuttings are duly attested.

(k) All entries in the sale-note shall be made by using indelible pencil and double sided carbon.”

[No. 10/77-C.E.]

सांकांनि० 37(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 32 के उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसरण में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं० 292/76 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 21 दिसम्बर, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में,—

(क) खंड (ख) में, मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(i) जारी करने की तारीख (अंकों और शब्दों दोनों में) ; ” ;

(ख) खड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ञ) विक्रय-नोट की प्रविष्टियों में अधिलेखन और काट-पीट से वह अवैध हो जाएगा जब तक कि ऐसे अधिलेखन या काट-पीट को सम्यक्तः अनप्रमाणित न कर दिया जाए।

(ट) विक्रय-नोट में की जाने वाली सभी प्रविष्टियां आलोच्य पेरिड और दुतरफा कार्बन का उपयोग करके की जाएगी।”

[सं. 10/77-के० उ० शु०]

G.S.R. 38(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 1 of the Central Excise (28th Amendment) Rules, 1976, published with the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 291/76-Central Excises, dated the 21st December, 1976, as amended by the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 9/77-Central Excises, dated the 25th day of January, 1977, the Central Government hereby appoints—

- (i) 1st day of February, 1977, as the date on which rules 2, 3 and 4 of the said Rules shall come into force, and
- (ii) 1st day of April, 1977, as the date on which rule 5 of the said Rules shall come into force

[No. 11/77-C.E.]

सांकांनि० 38(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 9/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 जनवरी, 1977 द्वारा तथा संशोधित, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 291/76-के० उ० शु० तारीख, 21 दिसम्बर, 1976 के साथ प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (28वां संशोधन) नियम, 1976 के नियम 1 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

- (i) 1 फरवरी, 1977 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त नियमों के नियम 2, 3 और 4 प्रवृत्त होंगे; और
- (ii) 1 अप्रैल, 1977 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसकी उक्त नियमों का नियम 5 प्रवृत्त होगा।

[सं० 11/77-के० उ० शु०]

G.S.R. 39(E).—In exercise of the powers conferred by paragraph 2 of the Notification of the Central Board of Excise and Customs No 292/76-Central Excises dated the 21st December, 1976, the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the 1st day of February, 1977, as the date on which the said notification as amended by the notification of the Central Board of Excise and Customs No 10/77-Central Excises dated the 25th day of January, 1972 shall come into force.

[No. 12/77-C.E.]

सांकांनि० 39(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, अपनी अधिसूचना सं० 292/76 केन्द्रीय उ० शु० तारीख 21 दिसम्बर, 1976 के पैरा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 फरवरी, 1977 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसकी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं० 10/77 के उ० शु०, तारीख 25 जनवरी, 1977 द्वारा तथा संशोधित उक्त अधिसूचना प्रवृत्त होगी।

[सं० 12/77-के० उ० शु०]

G.S.R. 40(E).—In exercise of the powers conferred by paragraph 2 of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 293/76-Central Excises dated the 21st December, 1976, the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 1977, as the date on which the said notification shall come into force.

[No. 13/77-C E]

सांकांनि० 40(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 293/76 के०उ०शु० तारीख 21 दिसम्बर, 1976 के पैरा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 1977 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिसूचना प्रवृत्त होगी ।

[सं० 13/77-के०उ०शु०]

G.S.R. 41(E).—In exercise of the powers conferred by paragraph 2 of the notification of the Central Board of Excise and Customs No 294/76-Central Excises dated the 21st December 1976, the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the 1st day of February, 1977, as the date on which the said notification shall come into force

[No 14/77-C E]

K. D TAYAL, Under Secy.

सांकांनि० 41(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, अपनी अधिसूचना सं० 294/76 के०उ०शु० तारीख 21 दिसम्बर, 1976 के पैरा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 1977 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिसूचना प्रवृत्त होगी ।

[सं० 14/77-के०उ०शु०]

के० डी० तायल, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977